



## सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक – 13.01.2023

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 13.01.2023 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

### एनडीपीएस एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली-

मु0अ0सं0 12/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त अनवर पुत्र भूरा निवासी ग्राम बेला की मढैया थाना असमोली जनपद सम्भल को 05.Mg Alpraquil साल्ट की 293 गोलियों के साथ उ0नि0 श्री मनोज कुमार गौतम द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम बेला को जाने वाले रास्ते पर बनी नहर की पुलिया की पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनवर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 195/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना असमोली जनपद सम्भल।
2. मु0अ0सं0 214/55 धारा 411 भादवि थाना असमोली जिला सम्भल।
3. मु0अ0सं0 110/20 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना भोट जनपद रामपुर।
4. मु0अ0सं0 42/21 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना भोट जनपद रामपुर।
5. मु0अ0सं0 77/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोट जनपद रामपुर।



### फर्जी दस्तावेज के साथ एक अभियुक्त मय मोटरसाइकिल के गिरफ्तार थाना कैलादेवी-

दिनांक 13.01.2023 को उ0नि0 श्री रोशन सिंह थाना कैलादेवी द्वारा मय पुलिस टीम के चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान अभियुक्त सतीश पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम रायपुर थाना कैलादेवी जनपद सम्भल को ग्राम खिरनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से वाहन मो0 सा0 नं0 यूपी 24 एल 7892 पर अंकित रजिस्ट्रेशन नं0 पर वाहन स्वामी का नाम बदलकर व असली रजिस्ट्रेशन नं0 को छिपाकर कागजात तैयार कर व मो0सा0 पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर प्रयोग की जा रही मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैलादेवी पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

## अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

मु0अ0सं0 20/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त दीपक पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम खोजापुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ है0का0 नवनीत कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम उधरनपुर खागी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

## 06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

### थाना चन्दौसी-

1. मु0अ0सं0 29/2023 धारा 153(क)/295 भादवि में वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम असालतपुर जारई थाना चन्दौसी जनपद सम्भल को प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दौसी श्री सत्येन्द्र सिंह पंवार द्वारा मय पुलिस टीम के जारई रोड पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त पप्पू उपरोक्त 5 भाई है। जिनकी 7.5 बीघा जमीन ग्राम से सटी हुई है। उक्त जमीन के हिस्से बटवारे पूर्व में हो चुके है। जिसमें राजपाल पुत्र मोतीराम नि0 ग्राम असालतपुर जारई को पिछे का हिस्सा मिला है बाकी सभी को सड़क किनारे का मिला है पप्पू व राजपाल में सड़क पर हिस्सा लेने को लेकर विवाद हो गया था जिसमें ग्राम के लोगों द्वारा दोनों भाइयों में यह समझौता कराया था कि राजपाल, पप्पू को 40 हजार रुपये देकर सड़क किनारे बराबर –बराबर बटवारा करेंगे। इसी बात को लेकर पप्पू उपरोक्त ने अपने खेत में बने मन्दिर में रखी स्थापित मूर्तियों को अपने भाई राजपाल को फसाँने की नियत से व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नियत से गिराकर खण्डित कर दिया था ।

2. मु0अ0सं0 10/2023 धारा 363/366 भादवि व 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्या पुत्र विनोद कुमार मौर्या निवासी कबीर गली सीकरी गेट कस्बा व थाना चन्दौसी जनपद सम्भल को प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दौसी श्री सत्येन्द्र सिंह पंवार द्वारा मय पुलिस टीम के सम्भल तिराहा चन्दौसी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### थाना गुन्नौर-

मु0अ0सं0 364/22 धारा 147/148/149/353/307/427/336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. प्रवेश पुत्र राजवीर 2. रमेश पुत्र प्रेमपाल 3. कल्लू पुत्र रघुवीर निवासी गण ग्राम बिजुआ नंगला थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के नेहरु चौक गुन्नौर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### थाना जुनावई-

मु0अ0सं0 11/23 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त कोजीराम पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम भरता नंगला थाना उधैती जनपद बदायूं को व0उ0नि0 श्री सुभाष राणा द्वारा मय पुलिस टीम के जुनावई चोराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

## 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

### थाना गुन्नौर-

वाद सं0 1054/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरीफनगर जनपद बदायूं में वारण्टी अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र शिशुपाल निवासी ग्राम अकबरपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री राजपाल सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के अकबरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना जुनावई-

वाद सं० 81/16 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त नीरज पुत्र दाताराम निवासी ग्राम पुसावली थाना जुनावई जनपद सम्भल को उ०नि० श्री मौ० साजिद द्वारा मय पुलिस टीम के अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।

---